



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 फरवरी, 2024

माघ 19, 1945 शक सम्वत्

[Republished from the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii)]

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

New Delhi, the 8th February, 2024

NOTIFICATION

S.O..... (E).— In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in Column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of member(s) specified against each State in Column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seat(s) of member(s) of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in Column (4) of the said Table, on the expiration of their term of office.

TABLE

Sl. No.	Name of State	No. of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andhra Pradesh	03	02.04.2024
2	Bihar	06	02.04.2024
3	Chhattisgarh	01	02.04.2024
4	Gujarat	04	02.04.2024
5	Haryana	01	02.04.2024
6	Himachal Pradesh	01	02.04.2024
7	Karnataka	04	02.04.2024
8	Madhya Pradesh	05	02.04.2024
9	Maharashtra	06	02.04.2024

Sl. No.	Name of State	No. of seats to be filled	Date of retirement
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Telangana	03	02.04.2024
11	Uttar Pradesh	10	02.04.2024
12	Uttarakhand	01	02.04.2024
13	West Bengal	05	02.04.2024
14	Odisha	03	03.04.2024
15	Rajasthan	03	03.04.2024

[F.No.H.11024/01/2023-Leg.II]

DIWAKAR SINGH,
Joint Secretary and Legislative Counsel.

By order,
ANUJ KUMAR JHA,
Special Secretary.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) से पुनः प्रकाशित]

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 8 फरवरी, 2024

अधिसूचना

का. आ.... (अ).- राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्य (सदस्यों) के स्थान (स्थानों) को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य (सदस्यों) को निर्वाचित करने की अपेक्षा करती हैं ।

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आंध्र प्रदेश	03	02.04.2024
2.	बिहार	06	02.04.2024
3.	छत्तीसगढ़	01	02.04.2024
4.	गुजरात	04	02.04.2024
5.	हरियाणा	01	02.04.2024
6.	हिमाचल प्रदेश	01	02.04.2024
7.	कर्नाटक	04	02.04.2024

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	निवृत्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	मध्य प्रदेश	05	02.04.2024
9.	महाराष्ट्र	06	02.04.2024
10.	तेलंगाना	03	02.04.2024
11.	उत्तर प्रदेश	10	02.04.2024
12.	उत्तराखंड	01	02.04.2024
13.	पश्चिमी बंगाल	05	02.04.2024
14.	ओडिशा	03	03.04.2024
15.	राजस्थान	03	03.04.2024

[फा0 सं0 एच.11024/01/2023-वि0.11]

दिवाकर सिंह,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी।

आज्ञा से,
अनुज कुमार झा,
विशेष सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

8th February, 2024,
Dated: _____ .
Magha 19, 1945 (Saka),

NOTIFICATIONS

No. 318/CS-Multi/2/2024(1) : - Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the *Gazette* of India on 08th February, 2024 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE.

TABLE

Sl. No.	Name of State	No. of members retiring
	(1)	(2)
1	Andhra Pradesh	3
2	Bihar	6
3	Chhattisgarh	1
4	Gujarat	4
5	Haryana	1
6	Himachal Pradesh	1

Sl. No.	Name of State	No. of members retiring
	(1)	(2)
7	Karnataka	4
8	Madhya Pradesh	5
9	Maharashtra	6
10	Telangana	3
11	Uttar Pradesh	10
12	Uttarakhand	1
13	West Bengal	5
14	Odisha	3
15	Rajasthan	3

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby,-

(A) appoints, with respect to the said election :-

- the 15th February, 2024 (Thursday), as the last date for making nominations;
- the 16th February, 2024 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
- the 20th February, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the 27th February, 2024 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- the 29th February, 2024 (Thursday), as the date before which the election shall be completed; and

(B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above-mentioned States on the date specified above for the election.

No. 318/CS-Multi/2/2024(2) :- In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the Column (1) of the TABLE below, hereby-

- designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the *Gazette* of India on 8th February, 2024 :-

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	Sri M. Vijaya Raju, Joint Secretary to Andhra Pradesh State Legislature	Sri P.V. Subba Reddy, Joint Secretary to Andhra Pradesh State Legislature
Bihar	Sh. Raj Kumar, Secretary, Bihar Legislative Assembly	Sh. Asim Kumar, Director, Bihar Legislative Assembly

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Chhattisgarh	Sh. Dinesh Sharma, Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly	Sh. Dinesh Trivedi, Deputy Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly
Gujarat	Mrs. Reeta Mehta, Joint Secretary, Gujarat Legislature Secretariat.	Mr. M. H. Karangiya, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat
Haryana	Sh. Saket Kumar, IAS, Managing Director, Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam Ltd.	Sh. Gaurav Goyal, Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha Secretariat
Himachal Pradesh	Shri Yash Paul Sharma, IAS, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha.	Sh. Jitender Singh Kanwar, Under Secretary (Legislation) Himachal Pradesh Vidhan Sabha
Karnataka	Smt. M.K. Vishalakshi, Secretary, Karnataka Legislative Assembly.	Shri. B.S. Mahalingesh, Director, Karnataka Legislative Assembly
Madhya Pradesh	Shri Sanjay Gupta, IAS, Labour Commissioner, Vidhan Sabha Bhawan, Arera Hills, Bhopal.	Sri Bhagwatdeen Singh Paraste, Additional Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Sabha Bhawan, Arera Hills, Bhopal
Maharashtra	Sh. Jitendra Bhole, Secretary (1) Incharge, Maharashtra Legislature Secretariat.	1. Shri Ruturaj J. Kudtarkar, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat. 2. Smt. Poonam H. Dhage, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat.
Rajasthan	Shri Mahaveer Prasad Sharma, Principal Secretary, Rajasthan Legislative Assembly.	Shri Suresh Chand Pareek, Assistant Secretary [General], Rajasthan Legislative Assembly.
Telangana	Sri Ch Upender Reddy, Joint Secretary, Telangana State Legislature.	Sri A Sudhakar, Assistant Secretary, Telangana State Legislature.
Uttar Pradesh	Sri Brij Bhushan Dubey, Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow.	Sri Ram Autar Singh, Joint Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Lucknow.
Uttarakhand	Shri Chandra Mohan Goswami, Joint Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly.	Shri Mayank Singhal, Senior Protocol Officer, Uttarakhand Legislative Assembly.
West Bengal	Shri Sukumar Ray, Principal Secretary, West Bengal Legislative Assembly.	Smt. Swasti Acharya, Joint Secretary-cum-Committee Officer, West Bengal Legislative Assembly.
Odisha	Shri Abanikanta Pattanaik, IAS, Additional Secretary to Government, Steel & Mines Department.	Sri Bidyadhar Majhi, Deputy Secretary, Odisha Legislative Assembly.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
*Secretary to the
Election Commission of India.*

By order,
ANUJ KUMAR JHA,
Special Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
8 फरवरी, 2024

तारीख : _____
19 माघ, 1945 (शक)

अधिसूचनाएं

सं० 318/रा०सं०-मल्टी/2/2024(1):-यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 08 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें।

सारणी

क्र० सं०	राज्य	भरे जाने वाले स्थान
	(1)	(2)
1	आंध्र प्रदेश	03
2	बिहार	06
3	छत्तीसगढ़	01
4	गुजरात	04
5	हरियाणा	01
6	हिमाचल प्रदेश	01
7	कर्नाटक	04
8	मध्य प्रदेश	05
9	महाराष्ट्र	06
10	तेलंगाना	03
11	उत्तर प्रदेश	10
12	उत्तराखण्ड	01
13	पश्चिम बंगाल	05
14	ओडिशा	03
15	राजस्थान	03

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा,-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :-

- (क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख — 15 फरवरी, 2024 (गुरुवार)
 (ख) नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख — 16 फरवरी, 2024 (शुक्रवार)
 (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख — 20 फरवरी, 2024 (मंगलवार)
 (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा — 27 फरवरी, 2024 (मंगलवार), और
 (ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा — 29 फरवरी, 2024 (गुरुवार), और

(आ) 09:00 बजे पूर्वान्ह से 04:00 बजे अपरान्ह तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

सं0 318/रा0सं0—मल्टी/2/2024(2) :- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 8 फरवरी, 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित माननीय राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा—

(i) नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा

(ii) उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी (यों) को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है।

सारणी

राज्य	रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
1	2	3
आंध्र प्रदेश	श्री एम0 विजय राजू, संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधानमंडल	श्री पी0 वी0 सुब्बा रेड्डी, संयुक्त सचिव, आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल
बिहार	श्री राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा	श्री असीम कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा
छत्तीसगढ़	श्री दिनेश शर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री दिनेश त्रिवेदी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
गुजरात	श्रीमती रीटा महेता, संयुक्त सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय	श्री एम0 एच0 करंगिया, उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय
हरियाणा	श्री साकेत कुमार, भा0प्र0से0, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	श्री गौरव गोयल, उप सचिव, हरियाणा, विधान सभा सचिवालय
हिमाचल प्रदेश	श्री यश पॉल शर्मा, भा0प्र0से0, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	श्री जितेंद्र सिंह कंवर, अवर सचिव (विधान) हिमाचल प्रदेश विधान सभा
कर्नाटक	श्रीमती एम0 के0 विशालाक्षी, सचिव, कर्नाटक विधान सभा	श्री बी0 एस0 महालिंगेश, निदेशक, कर्नाटक विधान सभा
मध्य प्रदेश	श्री संजय गुप्ता, भा0प्र0से0, श्रम आयुक्त विधान सभा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल	श्री भगवतदीन सिंह परस्ते, अपर सचिव, मध्य प्रदेश, विधान सभा सचिवालय, विधान सभा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
महाराष्ट्र	श्री जितेंद्र भोले, सचिव (1) प्रभारी, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	1—श्री ऋतुराज ज0 कुडतरकर, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय 2—श्रीमती पूनम हे0 ढगे, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय
राजस्थान	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा	श्री सुरेश चंद पारीक, सहायक सचिव (सामान्य) राजस्थान विधान सभा

राज्य	रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
1	2	3
तेलंगाना	श्री चे उपेन्द्र रेड्डी, संयुक्त सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल	श्री ए सुधाकर, सहायक सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल
उत्तर प्रदेश	श्री बृज भूषण दूबे, विशेष सचिव, विधान सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ	श्री राम औतार सिंह, संयुक्त सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
उत्तराखंड	श्री चन्द्र मोहन गोस्वामी, संयुक्त सचिव, उत्तराखंड विधान सभा	श्री मयंक सिंघल, वरिष्ठ प्रोटोकॉल अधिकारी उत्तराखंड विधान सभा
पश्चिम बंगाल	श्री सुकुमार रे, प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्रीमती स्वस्ति आचार्य, संयुक्त सचिव-सह-समिति अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधान सभा
ओडिशा	श्री अबनीकांत पटनायक, भा0प्र0से0, सरकार के अपर सचिव, इस्पात एवं खान विभाग।	श्री बिद्याधर माझी, उप सचिव, ओडिशा विधान सभा।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अनुज कुमार झा,
विशेष सचिव।